

DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Assignment for Sem 3 Hons – 2020

Answer this following question

1. What is EL-Nino? Briefly describe Monsoon mechanism with particular theory and special reference to India. 3+7 = 10
2. Briefly define causes of different ocean salinity and its distribution pattern. 7+3=10

Please submit your assignment within 4th November, 2020.

Write your assignment on A4 size full paper.

Scan your paper and transfer it in PDF format.

Send your paper on this email id, bratati.dey@gmail.com

ব্রিটিশ কলেজ
স্বদেশী বিভাগ

সেমিয়ার ৩ : বোনাম

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও :

১. অশুদ্ধির উৎসগুলি কাকে বলে? ৫
২. বিভিন্ন ধরনের অশুদ্ধির উৎসগুলির নাম লেখ। ৫
৩. পৃথিবীর যে কোন তিনটি উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২০

নির্দেশাবলী :

- উত্তরপত্র A4 সাইজের সাদা কাগজে লিখে লেখা দিতে হবে
- উত্তরপত্র Scan করে PDF format তৈরি করে নিহের নাম লেবে করে ফাইল দিতে হবে
- উত্তরপত্র আসামী ৪টা নম্বরে করে করে
bratatati.doy@gmail.com এতে ইমেল-আইডি তে পাঠাতে হবে।

DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Assignment for Sem 5 Hons – 2020

Answer this following question

1. How to write literature review in scientific research? How to write bibliography in research? 5+5 =10
2. Define GNSS? Briefly define principle of GNSS positioning and waypoint collection. 3+7= 10

Please submit your assignment within 4th November, 2020.

Write your assignment on A4 size full paper.

Scan your paper and transfer it in PDF format.

Send your paper on this email id, bratati.dey@gmail.com

কুর্চটান সালদায় কলেজ

দূরগোল বিভাগ

সেমিস্টার-২ : ত্রয়োব্দে

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও :

২. ভারতীয় আর্থনিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যকর
সম্মুখে লেখ । ২০
২. ভারতীয় আর্থনিক উন্নয়নে বৈদেশিক উন্নয়ন
-মুখে সম্মুখে আলোচনা ও পর্যালোচনা করো ।
২০.

নির্দেশাবলী

- উত্তরপত্র A4 সাইজের আদা পাঠ্য লিখে ইমা
দিত হবে ।
- উত্তরপত্র Scan করে, PDF format তৈরী করে
নিজের নামে লেভ করে ইমা দিত হবে
- উত্তরপত্র আসামী ওঠা নম্বরে, অর্থাৎ -
bgsatati, dey@gmail.com এতে ইমা পাঠাতে
পাঠাতে হবে ।